## **Vintron**

#### VIL/SEC/BSE/33

September 04, 2024

The Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor-25, Phiroze JeeJeeBhoy Tower,
Dalal Street, Fort, Mumbai 400001
Script Code: 517393

Sub: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are attaching herewith copies of newspaper advertisement published in Veer Arjun (Hindi) and Business Standard (English) in Delhi Edition dated 04<sup>th</sup> September, 2024, in compliance with MCA General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020, 2/2022 dated 5<sup>th</sup> May, 2022, 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023, in respect of 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on Monday, 30<sup>th</sup> September, 2024 at 11.30 AM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). The same is also available on the website of the Company.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Vintron Informatics bimited

Surbhi Pokhrival 🗼

**Company Secretary and Compliance Officer** 

Place: Delhi

c.c.:

1. The General Manager

Listing Department
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Calcutta 700001

**Vintron Informatics Limited** 

GSTIN: 07AAACV1596K1ZZ, CIN: L72100DL1991PLC045276

### PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall Patiala - 147001 Corporate Identity No. U40109PB2010SGC033813, Website: www.pspcl.in (Contact no. 96461-20640)

#### Tender Enquiry no. 1707/AHP/O&M/PC-2586

dated: 02.09.24

Chief Engineer / O&M (P&P Cell-1), GHTP, Lehra Mohabbat, invites E-tender for the Procurement of M.S. ERW Pipes, Quantity as per NIT. For detailed NIT & tender specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 02-09-2024

Note: Corrigendum and addendum, if any will be published online at https://eproc.punjab.gov.in

76155/12/3385/2023/37231

GHTP-76/24

Dwarka . New Delhi and

Retail Asset Centre: Axis Bank Ltd. Gigaplex, NPC-1, 3rd Floor MIDC, Airoli Knowledge Park Mugulsan Road Airoli Navi Mumbai-400708 Also at: Axis Bank Ltd., Axis House, Tower T-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P.)-201301 Corporate Office: 'Axis House', Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025 Registered Office: Trishul', 3rd floor, opposite Samartheswar Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

## POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notice upon the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s pentioned below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt o the said notice. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) having failed to reput he amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Go-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Axis Bank Ltd. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Name of Borrower / Co-borrower

1. Mr. Rajendra Prasad S/o. Ram Narayan R/o. RZ- F1/316, Flat No-205 Gali No-2A, Mahavir Enclave, Palam, Delhiroof rights portion of the Till 045 Also At-M. Rajendra Prasad S/o. Ram Narayan R/o. Plot No. 64, 2nd Floor, Block-C, Sec-8, Dwarka, New Delhi-10075 Also At-Mr. Rajendra Prasad (Proprietor) My Rajendra Motors Shop No-3, Plot No-A-21, Chander Vihar, Palam Extn. Part-1, Sector-7, New Delhi-110045 property Bearing Plot No-64, Land Area Measuring 60 Sq. Mtrs. Block-C, Sector-8, Dwarka Residential Scheme, 2. Mrs. Meera, W/o. Mr. Rajendra Prasad R/o. RZ-F1/316, Flat | Bounded as under : - North-As

Nors. Meera, W.O. Mr. Rajeint abada N.O. 2-17/316, about bounded as finds: "Avail-Naco-205 Gali No-2A, Mahavir Enclave, Palam, Delhi-110045 per site plan, East - As per site so At- Mrs. Meera, W/o. Mr. Rajendra Prasad R/o. Plot No. 4, 2nd Floor, Block-C, Sec-8, Dwarka, New Delhi-110075 South-As per site plan. 64, 2nd Floor, Block-C, Sec-8, Dwarka, New Delhi-110075 Amount in Demand Notice (Rs.): Rs.23,04,557/-Date of Demand

Possession (Rupees Twenty Three Lakh Four Thousand Five 30-Aug-2024 Hundred Fifty Seven Only) 15-Jun-2024

The above-mentioned Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) are hereby given a 3 lays' Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days' from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

MONTE CARLO FASHIONS LIMITED

(CIN: L51494PB2008PLC032059)

Registered Office: B-XXIX-106, G.T. Road, Sherpur, Ludhiana-141003 Tel.: 91-161-5048610-40, Fax: 91-161-5048650

Website: www.montecarlocorporate.com

E-mail: investor@montecarlocorporate.com

ADDENDUM TO THE NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING

This is in reference to the Notice dated August 5, 2024 (16th AGM Notice) along with Annual report for the FY 2023-24 sent to all the

Members on August 27, 2024 for convening the 16th Annual General

Meeting ('AGM') Scheduled to be held on Monday, September 23, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio

Visual Means (OAVM) and subsequent public notice in relation to the

Subsequent to issuance of the aforesaid 16th AGM notice dated August

5, 2024, the company has received in writing under Section 160 of the

Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 13 of the Companies

(Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014, from a

Member proposing the candidature of Dr. Prem Lata Singla (DIN:

09674172) for the office of a Director of the Company. Accordingly, the

proposal for appointment of Dr. Prem Lata Singla as an Independent

Director of the Company shall be taken up for consideration by the

Members of the Company at the ensuing 16th AGM as a part of Special

In this regard, company has sent an Addendum to the Notice of 16th

AGM on August 30, 2024 electronically to all the members. This

addendum shall be deemed to be an integral part of the original Notice

dated August 5, 2024 and the notes provided therein circulated to the

Members. The said addendum to the Notice of AGM is available on the

website of the Company at www.montecarlocorporate.com, websites of

the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of

India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and website of CDSL at www.cdslindia.com and

Members may note that the aforesaid proposal for appointment of Dr. Prem Lata Singla as an independent Director would be included in the

emote e-voting facility commencing on Friday, September 20, 2024 at

09.00 a.m. and ending on Sunday, September 22, 2024 at 05.00 p.m.(both days inclusive) and in e-voting during the AGM. All the

processes, notes and instructions relating to remote e-voting and e-voting during the 16th AGM as well as the process of attending the 16th

AGM through VC/OAVM as set out in the 16th AGM Notice dated August

5, 2024 shall mutatis-mutandis apply to the Resolution proposed in this

Addendum to the Notice. Furthermore, the Scrutinizers appointed for the

ensuing 16th AGM will act as Scrutinizers for the Resolution proposed ir

16th AGM published in Newspaper on August 29, 2024.

Business, in the form of Special Resolution at item no. 10.

Date: 04-Sep-2024, Place:Noida

www.evotingindia.com.

this Addendum to the Notice of 16th AGM.

LOAN ACCOUNT NO.

## **POSSESSION NOTICE**

VINTRON INFORMATICS LIMITED

Regd. Office: D-88, Second Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 CIN: L72100DL1991PLC045276

Tel. No.: 011-44126457

 $Website-vintron informatic.com, Email\ ID-vil\_vintron@hotmail.com$ 

INFORMATION TO SHAREHOLDERS FOR 33<sup>80</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Vintron Informatics Limited ('Company') will be held on Monday, September 30, 2024 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') in compliance with General Circulars of Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, January 13, 2021,

December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), to transact the business as set forth in the Notice of AGM.

Pursuant to the MCA Circulars, the Notice of the AGM of the Company alongwith the login

details for joining the AGM through VC/OAVM including e-voting shall be sent through

e-mail facility to all members whose e-mail IDs are registered with the Company

epository Participant(s). The Members can join and participate in the AGM through

VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM shall be provided in the

Notice of the AGM. The Members participating through VC/OAVM facility shall be counted

for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Act. The Notice of the

AGM will also be available on the Company's website vintroninformatic.com, website of

the Stock Exchange i.e. BSE Limited (Scrip Code: 517393) at www.bseindia.com and on

he website of National Securities Depository Limited (agency for providing the remote

Shareholders who have not registered their email addresses will have an opportunity to

cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through emote e-voting or through e-voting system during the AGM. The shareholders whose

email addresses are not registered with the Depositories, can procure the user id and password for casting their vote through e-voting by following the following process:

a) Shareholders who are holding shares in physical mode, to provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested), Aadhaar (self attested) by an email to <a href="mailto:cs@vintron.co.in">cs@vintron.co.in</a>

Shareholders who are holding shares in demat mode, to provide DP ID-Client ID

Name of shareholder, Client Master or copy of consolidated account statement, PAN

urther, the detailed manner of voting remotely for shareholders holding shares in

Shareholders whose shareholding is in dematerialized mode are requested to notify any

change in e-mail ID or address or bank account details to their respective Depository

Participant(s). Further, shareholders holding shares in physical mode, who wish to

register their email address/bank account mandate are requested to register/update the

details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with the Registrar and Share

he above information is being issued for the information and benefit of all the Members of

ematerialized and physical mode will be provided in the Notice to the shareholders.

e-voting and e-voting facility) at www.evoting.nsdl.com

(self-attested), Aadhaar (self attested) to cs@vintron.co.in

Transfer Agent, M/s. Skyline Financial Services Private Limited.

the Company and is in compliance with the MCA Circulars.

Date: 03.09.2024

The undersigned being the Authorized Officer of SAMMAAN CAPITAL LIMITED(CIN:L65922DL2005PLC136029) (formerly known as INDIABULLS Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interes (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 28.10.2021 calling upon the Borrower(s) VIJAY SAXENA AND VEENESH SAXENA to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.38,23,855.28 (Rupees Thirty Eight Lakhs Twenty Three Thousand Eight Hundred Fifty Five And Paise Twenty Eight Only) against Loan Account No. HHLVAS00461320 as on 20.10.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 30.08.2024. The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SAMMAAN CAPITAL LIMITED (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) for an amount of Rs.38,23,855.28 (Rupees Thirty Eight Lakhs Twenty Three Thousand Eight Hundred Fifty Five And Paise Twenty Eight Only) as on 20.10.2021 and interest thereor

the Act in respect of time available to redeem the Secured Assets

## **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

FLAT NO-1807 18TH FLOOR TOWER- AS HABITECH PANCHTATVA PLOT NO. GH- 8A. TECH ZONE-4. GREATER NOIDA. GAUTAM BUDDHA NAGAR LITTAR PRADESH \_ 201303

**Authorized Officer** Date: 30.08.2024 Place: GAUTAM BUDDHA NAGAR SAMMAAN CAPITAL LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)

For MONTE CARLO FASHIONS LIMITED

Place: Ludhiana COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER ICSI Membership No. F10577 Date: 02.09.2024

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act) Name of Borrower(s) Particulars of Mortgaged Outstanding (C) (B)

FLAT NO. UGF - 01, UPPER

GROUND FLOOR, FRONT LHS, KHASRA NO. 350, PLOT NO. – A 60, RAIL VIHAR LONI VILLAGE ourteen Lakh Eighty One Thousand Sixty One and Pai KAPIL DEV SUSHMA DEVI Four Only) as on 05.08.2024 ADITYA JAISWAL SADULLAHABAD GHAZIABAD -(GUARANTOR) 201102, UTTAR PRADESH. That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amoun

Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has beer classified by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification issued by Regulating Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower. n view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his / their liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the

Please note that in terms of provisions of sub - Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entire Please note that in terms of provisions of such Section (o) of Section 13 of the SARFACSTAC, A DUTOWER can be not amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time

frame, Borrower may not be entitled to redeem the property."
In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESIAct, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the otice, without prior written consent of secured creditor. For SAMMAAN CAPITAL LIMITED

(Formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.)

04.07.2024 Rs. 14.81.061.04/- (Rupees

Place : GHAZIABAD

**Authorized Office** 

झारखण्ड सरकार ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

तृतीय तल्ला, नयासमाहरणालय भवन, पपरवाटांड़, गिरिडीह, झारखण्ड— 815301 ई-अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

ई—निविदा सं $0:-24/2024-25/\mathrm{RW}\overline{\mathrm{D/EE/GIRIDIH}}$  दिनांक :=03.09.2024 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurment पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है। 1.कार्य का नाम :--

<del>ه</del> ٥	क्र0 आईडेन्टीफिकेशन		प्राक्कलित राशि (रुपया में)		कार्य	टेंडर
सं0	संख्या / पैकेज संख्या		अंक में	अक्षर में	समाप्ति की अवधि	कॉल संख्या
1	RWD/GIRIDIH/6 5/2024-25	डोमन पहाड़ी चुंगलो पीच रोड से केन्दुआ पीच रोड भाया दिवदाहा तक पथ निर्माण कार्य। (लं0–2.000 कि0मी0)	1,91,44,200.00	एक करोड़ इकान्वे लाख चौवालीस हजार दो सौ रू० मात्र	12 माह	प्रथम
2	RWD/GIRIDIH/6 6/2024-25	खरगडीहा पीच रोड से त्रिवेणी घाट भाया बेलकुण्डी तक पथ निर्माण कार्य। (लं0—3.000 कि0मी0)	2,61,57,300.00	दो करोड़ इकसठ लाख सन्तावन हजार तीन सौ रू० मात्र	15 माह	प्रथम
3	RWD/GIRIDIH/6 7/2024-25	खरियोडीह पीच रोड से कोदमबरी पथ भाया आजाद नगर तक पथ निर्माण कार्य। (लं0–1.500 कि0मी0)	1,46,24,600.00	एक करोड़ छियालीस लाख चौबीस हजार छः सौ रू० मात्र	09 माह	प्रथम

. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि :— 06.09.2024

PR 334579 (REO)24-25\*D

3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 13.09.2024 अपराह्न 5.00 बजे तक।

4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :—18.09.2024 अपराहन 3.30 बजे।

5. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल गिरिडीह, तृतीय तल्ला, नया समाहरणालय भवन, पपरवाटांड, गिरिडीह, झारखण्ड– 815301

6. ई—निविदा प्रकोश्ठ का दूरभाष सं0—06532—225381 विस्तृत जानकारों के लिए वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas.

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS RURAL FINANCE PRIVATE LIMITED (CIN:U74140MH1993PTC074596) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 24.01.2022 calling upon the Borrower(s) SUMAN, SANJAY KUMAR, HARSH PANDEY AND MANOJ KUMAR to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.10.27,922.86 (Rupees Ten Lakhs Twenty Seven Thousand Nine Hundred Twenty Two And Paise Eighty Six Only) against Loan Account No. HRHLVAS00484507 as on 20.01.2022 and interest there on within 60 days from the date of receipt of the

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 30.08.2024

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS RURAL FINANCE PRIVATE LIMITED for an amount of Rs.10,27,922.86 (Rupees Ten Lakhs Twenty Seven Thousand Nine Hundred Twenty Two And Paise Eighty Six Only) as on 20.01.2022 and interest thereon

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY PLOT NO. F-50. FLAT NO.GF-4. GROUND FLOOR, REAR LEFT HAND SIDE. BLOCK-F, SLF VED VIHAR, GHAZIABAD-201102. UTTAR PRADESH.

Authorized Officer Date: 30.08.2024 INDIABULLS RURAL FINANCE PRIVATE LIMITED Place: GHAZIABAD

#### POSSESSION NOTICE (for immovable property)

For Vintron Informatics Limited

Company Secretary and Compliance Officer

Surbhi Pokhriya

The undersigned being the Authorized Officer of SAMMAAN CAPITAL LIMITED(CIN:L65922DL2005PLC136029) (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) under the Securitisation and Reconstruction of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 27,05,2024 calling upon the Borrower(s) LALIT MOHAN BALI AND SUNITA BALI to repay the amoun mentioned in the Notice being Rs.52.33.993.78 (Rupees Fifty Two Lakhs Thirty Three Thousand Nine Hundred Ninety Three And Paise Seventy Eight Only) against Loan Account No.HHLDCP00236137 as on 27.05.2024 and interes thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

The Borrower(s) having failed to repay the amount. Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic **Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 31.08.2024.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SAMMAAN CAPITAL LIMITED (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) for an amount of Rs.52.33.993.78 (Rupees Fifty Two Lakhs Thirty Three Thousand Nine Hundred Ninety Three And Paise Seventy Eight Only) as on 27.05.2024 and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. D-905, HAVING SUPER AREA 1635 SQUARE FEET, I.E. 151.90 SQUARE METERS ON 9TH FLOOR, TOWER-D, IN THE PROJECT KNOWN AS BEETLE LAP. SITUATED AT SECTOR 25. PLOT GH-G2. JAYPEE GREENS SPORTS CITY SDZ, NOIDA-201301, UTTAR PRADESH

Date: 31.08.2024 Authorised Officer SAMMAAN CAPITAL LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)

#### **COMPETENT AUTOMOBILES CO. LTD.** Regd, Off, Competent House, F-14, Connaught Place, New Delhi-01

Ph.: 011-45700000 Email: cs@competent-maruti.com Web.: www.competent-maruti.com CIN: L34102DL1985PLC020668 INFORMATION REGARDING NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL

#### MEETING ('AGM'), TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM); Pursuant to the General Circular No. 10/2022 & 09/2023

The 39th Annual General Meeting ('AGM') of Competent Automobiles Co. Ltd. will be held on Saturday, September 28, 2024 at 11:00 AM (IST) through Video-Conferencing/ Other Audio-Visual Means ('VC/OAVM') Pursuant to the General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued ly the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), to transact the businesses set out in the Notice convening the 39th AGM.

Electronic copy of the Notice convening the 39th AGM, procedure & instructions fo e-voting and the Annual Report for FY-2023-2024 will be sent to those Members whose email ID is registered with the Company/ Depository Participants ('DP').

Members who have not registered their e-mail address, are requested to register the

• in respect of shares held in demat form - with their DP(s); and

in respect of shares held in physical form - (i) by writing to the Company's Registrar and

Share Transfer Agent viz. Skyline Financial Services Private Limited, with details of folio number and self-attested copy of PAN card at Skyline Financial Services Private Limited, Unit Competent Automobiles Co. Ltd., D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi -110020; OR (ii) by sending email to admin@skylinerta.com

The Company will provide facility to Members to exercise their right to vote by electronic means. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM and the process of e-voting (including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting), will form part of the Notice of 39th AGM.

Notice convening the 39th AGM and Annual Report for FY 2023-2024 will also be available on the website of the Company at www.competent-maruti.com, and the stock exchange viz. BSE Ltd

at www.bseindia.com For Competent Automobiles Co. Ltd.

Date: September 3, 2024 Ravi Arora Place: New Delhi **Company Secretary** 

### बैंक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda

## Branch: Sitarganj, Distt. Udham Singh Nagar

## POSSESSION NOTICE

and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and ir exercise of Powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice as mentioned against each account stated herein to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the receipt of the said notice. The Borrowers/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and Mortgagor/Guarantor and the public in general, that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred up on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule as per the details given below. The Borrowers/ Mortgagor, Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount and interest thereon as mentioned below. The borrower's/ Guarantor's attention is invited to the provision of Sub Section (8) of Section-13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

1. M/S Kishan Agri Farms (Prop. 1. Equitable Mortgage of the Commercial property ₹ 3,12,25,317.55

ingh), Village Bhagchuri, PO	Khatima, U.S. Nagar belongs to Shri Bhupendra	Lakhs Twenty Five	1 1
Nausar U.S. Nagar Uttrakhand-	Singh, Khata no 131 (Crop year 1400-1425), Present	Thousand Three Hundred	
262308	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Seventeen & Paise Fifty	
. Mr. Bhupender Singh S/o	Khata No. 143 (Crop Year 1426-1431), Khasra No.	Five only) + Unapplied	
(ishan Singh (Proprietor), R/o	836/1 Min area 4.04 Hectare out of which 3.231	interest + legal charges	
/illage Bhagchuri, PO Nausar	hectare has been declared Non Agricultural	+ other charges	1
J.S. Nagar Uttrakhand-262308	belongs to Shri Bhupendra Singh. Boundaries as per	w.e.f. 31.03.2024	
B. Mr. Kishan Singh S/o Trilok	belongs to sim bridgenard singh. Boundaries as per		1 1
	sale deed-East: Road, West: Land of Vendee, North:	29.08.2024	1 1
ingh (Guarantor) R/o Vill	Road, South: Land of Pushpa Devi.	Date of Demand Notice	1
hankat, Nanakmatta U.S.	2. Equitable Mortgage of the House situated at DDA	21.05.2024	
Nagar Uttrakhand-262308	Flat No. 16, Block K& L, Sarita Vihar, and New Delhi c	overed area 92.91	
I. Mrs. Leelawati Singh W/o	sgr. Mt. belongs to Shri Bhupendra Singh, Boundarie	s as ner Valuation	1

situated at revenue village Village Bhagchuri, Tehsil

## उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि.

इकाई: पिपराईच (गोरखपुर) २७३१५२

<sup>7</sup>निविद<u>ा सूचना</u> इस मिल के सत्र 2024-25 के लिए निम्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अनुभवी निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं∕आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक **19.09.2024** तक<sup>े</sup> मोहरॅबन्दॅ लिफाफे में निविदॉर्ये आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	विवरण	निविदा खोलने की तिथि	धरोहर धनराशि (रू.)	क्र. सं.	विवरण	निविदा खोलने की तिथि	धरोहर धनराशि (रू.)
1.	ब्यायलर टेस्ट किट	20.09.2024	5,000.00	4.	लैब केमिकल्स एवं लैब एपरेटस	20.09.2024	5,000.00
2.	स्पेयर ऑफ केन अनलोडर	20.09.2024	5,000.00	5.	काँटो की रंगाई पुताई हेतु	20.09.2024	3,000.00
3.	रिफ्रैक्टरी मैटेरियल	20.09.2024	5,000.00		Acus od		

निविदा फार्म की फीस रु. 590/- (GST सहित), धरोहर धनराशि, मिल के कोषागार में नगद अथवा मिल के ण्डियन बैंक शाखा पिपराईच के खाता संख्या 50537210018 एवं IFSC Code-IDIB000C503 जमा करके कार्यालय कार्यदिवस में अथवा ई-मेल द्वारा निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रथान प्रबन्धक के पास सुरक्षि रहेगा। संपर्क अधिकारी- मुख्य अभियन्ता मो. **8299306043,** मुख्य रसायनज्ञ मो. **9265735574**, क्रय प्रभारी मो. **6307854509** Email:upsscdclpipraich2018@gmail.com "प्रधान प्रबन्धक

## **BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED**

Regd.Office: 56/7, Nallambakkam Village (Via Vandalur), Chennai-600 048, Tamil Nadu CIN- L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21

E-mail: shares@bhartiya.com Website: www.bhartiya.com

#### NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING AND **E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that 37th Annual General Meeting ("AGM") of Bhartiya national Limited ("the Company") will be held on Friday, September 27, 2024 a 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses, as set out in the Notice convening 37th AGM of the Company

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 ("the Act") and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations" read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, 10/2022 dated 28tl December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular Nos SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD 2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by SEBI, along with other applicable Circulars issued by the MCA and SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

Further, in accordance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the 37th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 has been electronically sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company and/or Depositor Participant(s) ("DPs").

#### Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM

1. Pursuant to Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2) issued by the Institute o Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide facility to its members, to cast their vote on all the Resolutions set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ("remote e-Voting"), provided by Nationa Securities Depository Limited ("NSDL"). The detailed procedure/instructions in this respect have been provided in notes to the Notice of AGM.

2. The members of the Company, holding shares either in physical form or i dematerialised form, as on the Record date/Cut-off date i.e., Friday, September 20, 2024, may cast their vote electronically. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 24, 2024 (09:00 A.M. IST) and ends or Thursday, September 26, 2024 (05:00 P.M. IST). The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting after 05:00 P.M. (IST) on Thursday, September 26 2024. Those who are not Members on the record date/cut-off date should accordingly treat the AGM Notice for information purposes only. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change subsequently. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the total paid-up Equity Share Capital of the Company as on the record date/cut-off date. Members who have already cast their votes through remote e Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM. Members attending the AGM who have not cast the votes through remote e-Voting shall be able to exercise their voting rights during the

3. Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares on the Record date/Cut-off date i.e. Friday September 20, 2024 may obtain the login ID by referring the AGM notice. However if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password to cast your vote.

4. The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Ravi Sharma, Partne RSM & Co., Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the  $remote\ e\text{-voting}\ process\ \&\ e\text{-voting}\ during\ AGM\ in\ a\ fair\ and\ transparent\ manner.$ 

 Members who need assistance before and during the AGM, can contact at <u>evoting@nsdl.com</u> or call on 022-48867000 and to Company's RTA at investor@masserv.com or call on 011-26387281-82-83, 41320335. Alternatively Members may also write to the Company Secretary of the Company at the email ID shares@bhartiya.com; yogesh.gautam@bhartiya.com.

he Notice of the 37th AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 are available n website of Company at https://bhartiyafashion.com/download/Notice-of-AGM-2023 24-and-Annual-Report-2023-24.pdf and Stock Exchanges websites i.e www.bseindia.com; www.nseindia.com and at website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. For Bhartiya International Limited

Place: Gurugram, Haryana

address visit www.janabank.com.

Sr. Loan Account

Sd/-

Company Secretary cun Date: 03rd September, 2024 **Compliance Office** Membership No. 31119

### **JANA SMALL FINANCE BANK Head Office:** The Fairway, Ground & First Floor,

Survey No.: 10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring

Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071 **PUBLIC NOTICE FOR AUCTION OF GOLD ORNAMENTS** The below mentioned borrowers have failed to repay the loan and redeem the g

ornaments within the stipulated time in spite of several reminders. The Gold lewellery/ornaments pledged under the said loan accounts by the below listed borrowers will be sold in public/ Online/ private auction at our Branch premises or 26-09-2024 at 10.30 AM. Those willing to participate are requested to contact the branch. The Bank reserves the right to accept or reject any bid without assigning any reason whatsoever. Please note if the auction does not get completed on the sam day, the same will follow the subsequent days on the same terms and conditions. the customer is deceased all the conditions pertaining to auction will be applicable to nominee/legal heir. The Borrower are hereby notified to pay the upto date interes and ancillary expenses before the date of auction, failing which the pledged gold ornaments will be sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. For any queries and terms and conditions contact branch. For details of branch

Gross Weight o

No.	No.			Prnaments		
1	32638740000417	638740000417 SUNITA VIRENDER				
2	32638740000404	KARAN KUMAR	KARAN KUMAR			
Ja	Jana Small Finance Bank Ltd., 1st Floor, A-7-8/88, Ramgarh, Jahangirpuri, Karnal Road, Corporation Bank Building, North Delhi, Delhi, 110009					
3	32898730060763	HANSRAJ DARB SINGH				
4	32898730060102	BABLI KHATOON MAHARDEEN	15.4			
Ja	Jana Small Finance Bank Ltd., 1st Floor, Building No. 10-A, Balram Nagar, Loni,Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201102					
5	31288740008351	288740008351 SUDESH RAJ KUMAR				
Jana	Jana Small Finance Bank Ltd., 1st Floor, FCA-57, Chawla Colony, 100ft Road Above IDBI Bank, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana, 121004					
- 6	20000720044642	ADDIT DATUODE	$\neg \top$	E E		

	Above IDBI Bank, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana, 121004					
6	30808730041612	ARPIT RATHORE	5.5			
7	30808730039791	SANDEEP KUMAR	7.1			
8 30808730039495 BINDUDEVI CHANDEN 1						
Ja	Jana Small Finance Bank Ltd., 1st floor, Property No. B-109, Jyoti colony, Near Durgapuri chowk, Shahdara, East Delhi, Delhi, 110032					
_	00000700045504	0 D ! !/				

30908730015584 | Sena Ravi Kumar 9.9 10 30908730015009 ABHIMANYU PANDEY 24 11 30908730014890 RAJU 8.5 Jana Small Finance Bank Ltd., Ground floor, plot no.74, Block No. D (D-74). Malviya Nagar, South Delhi, Delhi, 110017

12 | 32818740000853 | LATA LATA 19 Jana Small Finance Bank Ltd., 1st Floor, U-182/A, Upadhyay Block, Shakarpur, Vikas Marg, Lakshmi Nagar, Delhi-110092

13 | 30808730029750 | RAVI KUMAR 5.05 Jana Small Finance Bank Ltd., Building no B-109, Jyoti Colony Near Durgapuri Chowk Shahadra Delhi-110032

14 31268740001451 RAJENDRA KUMAR 33.7 15 31268740001412 DEEPANSHU DEEPANSHU 27.3 Jana Small Finance Bank Ltd., No. 14/78, 1st Floor, Model Town, Saini Market, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana, 124507

16 30218740001900 JYOTI PANDEY 48.3 17 30218740001834 KIRAN 44.7 18 30218740001570 AMIR KHAN 8.14 19 30218740001541 JAGDISH 48.25 7.1

20 30218730015704 SUMER SINGH Jana Small Finance Bank Ltd., No.8, Paschim Enclave, Rohtak Road, Near Peera Gahri Chowk, Opp.Maruthi Show Room, Paschim Vihar, West Delhi, Delhi, 110087 Place: Delhi Sd/- Authorised Officer

Jana Small Finance Bank Limited

Date: 04-09-2024

Name & Address of

Bhupender Singh S/o Kishan

Description of Immovable Properties Outstanding Amount

**Authorised Officer** 

B**nupender Singn (Guarant** R/o K-16, Sarita Vihar, New Report :North -East: Other North-West : Open Space, South-East: Open Delhi South Delhi, Delhi-110076 Space, South-West: Entry Flat No. K-12. Place: Sitarganj, Distt. U.S. Nagar, Uttarakhand

ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल, गिरिडीह

Date: 04.09.2024

The Borrower(s) having failed to repay the amount. Notice is hereby given to

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 or

EAST COAST RAILWAY File No. DRM/Engg/KUR/24-25/ E-Tender/52 Dt.: 27.08.2024 Tender No. etendernorthkur-169-2024 Dt.: 22.08.2024 Description: PROPOSED REPAIRS TO

CESS IN PATCHES BETWEEN KM. 16/5 TO

KM 151/12 LINDER THE JURISDICTION OF

ASSISTANT DIVISIONAL ENGINEER KENDUJHARGARH OF KHURDA ROAD Approx cost of the work : ₹ 286.94 Lakhs,

EMD: ₹ 2,93,500/-, Completion period: 12 Tender closing date & time : at 1500 hrs. of 13.09.2024.

No manual offers sent by Post/Courier/Fax or in person shall be accepted against such tenders even if these are submitted on firm's letter head and received in time. All such manual offers shall be considered invalid and shall be rejected summarily without any consideration.

Complete information including e-tender documents of the above e-tender is available in website www.ireps.gov.in Note: The prospective tenderers are advised to revisit the website 10 (Ten) days before the

date of closing of tender to note any changes corrigenda issued for this tender. Divisional Railway Manager (Engg) Khurda Road

## शिक्षा प्रणाली में शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए : मुर्मू

पुणे, (भाषा)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा प्रणाली में शोध को प्रोत्साहि-त करने की आवश्यकता पर जोर देते हए मंगलवार को कहा कि भारत में शोधार्थी न केवल देश, बल्कि दुनिया के समक्ष मौजूद समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी सक्षम है। मुर्मू ने कहा कि राष्टीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शोध को बढावा देती है। राष्ट्रपति ने यहां सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड युनिवर्सिटी) के 21वें दीक्षांत समारोह में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि युवा पीढ़ी देश के विकास के लिए कडी मेहनत कर रही है। देश के लोगों में बहुत प्रतिभा और कौशल है। मैं चाहती हूं कि आप समाज की आवश्यकताओं को समझें और अपने ज्ञान का उपयोग करके ऐसे समाधान खोजें जो आम जनता, खासकर हाशिए पर रह रहे लोगों के

In The Court of Sh. **Paras** Dalal, Commercial Civil Judge cum Addl. Rent Controller cum Administrative Civi

Complex, New Delhi. (Proclamation Requiring Attendence of Defendant) (Order 5, Rule 20 of the **Code of Civil Procedure)** DR 93/2019

Judge South District, Room

No. 204, Saket Court

N.D.O.H.- 11.09.2024 Sh. Manmohan Singh S/o Late S. Inder Singl (erstwhile partner, M/s Sardar Dairy (Regd.) now proprietor, M/s Sardar Dairy (Regd), 14/5, Yusuf Sarai (Main Market), Aurobindo Marg, New Delhi-110016. .....Petitioner

V/sSmt. Prem, Village-Sankhol, Bahadurgarh, Haryana. .....LR of R-1 To,

#### The above named Respondents

Whereas you intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you will no defend the case on the 11th day of September 2024, the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under may hand and seal of the Court on this 28th day of August 2024. Seal

**Commercial Civil Judge** cum Addl. Rent Controller cum Administrative Civil Judge South District, Saket Court Complex, New Delhi.

Proclamation Requiring **Attendance of Defendant** (Order 5, Rule 20 of The **Code of Civil Procedure**) In The Court of

Sh. Aman Kumar Sharma, Civil Judge-02, Shahdara District, Court No. 401, Building, New Karkardooma Court

Delhi. Civ Suit No. 950/2020 M/s B D Trading Company

.....Plaintiff Versus

Praveen .....Defendant To,

**Praveen** Prop./Authorized Signatory of M/s Nishtha Determining Fashion Having Office At: H-13/14, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-

#### (The Defendant Above Named)

110092

Whereas intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 10.09.2024 at 10.00 AM the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court this 30.08.2024. Seal

Civil Judge-02, Shahdara District, New Building Karkardooma Court, Delhi.

works as detailed in the table.



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के 21वें दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान करती हुईं। (छाया : एएनआई) विकास में मदद कर सकें और इससे

स्थिरता को बढावा मिल सके। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप

के माध्यम से युवा पीढी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा, मैं यहां सभी से कहना चाहुंगी कि इंडिया , स्किल इंडिया और स्टैंड-शिक्षा प्रणाली में शोध को बढावा दिया अप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं

## उत्तर मध्य रेलवे

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि. मण्डल विद्युत अभियन्ता (कावि०), उत्तर मध्य रेलवे, आग द्वारा "<mark>खुली निविदा</mark>" निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है।

निविदा संख्या : AGCTRDT202413 अनुमानित लागत : ₹ 6709360/ कार्य पूर्ण करने की अवधि : 12 माह धरोहर राशि : ₹ 134200/-कार्य का नाम : आगरा कैएट स्टेशन पर ट्रेन सेटों के लिए ट्रिमेनल अटेशन फेसिलिटी विकसि

करने के लिए ओ एच ई लगाने का कार्य। . निविदा पत्र भारतीय रेलवे की वेब साइट (www.ireps.gov.in) पर देखा व भरा जा सकट है। 2. निविदा पत्र सिर्फ भारतीय रेलवे की वेब साइट (www.ireps.gov.in) पर दि 17.09.2024 को 15:30 Hrs. तक भरा जा सकता है। North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @ CPRONC

### उत्तर मध्य रेलवे ई-निविदा सुचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि. मण्डल विद्युत अभियन्ता (क0वि0), उत्तर मध्य रेलवे, आग द्वारा खुली निविदा निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है ।

निविदा संख्या : AGCTRDT202414 कार्य पूर्ण करने की अवधि : 09 माह अनुमानित लागत : ₹ 3588882/-धरोहर राशि : ₹ 71800/-**कार्य का नामः** आगरा मंडल के इंजिनियरिंग विभाग द्वारा विभिन्न स्टेशनों के प्लेटफार्मों वे मोडीफिकेशन के कारण ओ. एच. ई. में मोडीफिकेशन का कार्य

. निविदा पत्र भारतीय रेलवे की वेब साइट (www.ireps.gov.in) पर देखा व भरा जा सकते हैं . निविदा पत्र सिर्फ भारतीय रेलवे की वेब साइट (www.ireps.gov.in) पर दि. 20.09.2024 कं

1537/24(DG)

कार्यालय कलेक्टर (खेल एवं युवा कल्याण विभाग) जिला–जशपुर (छ.ग Email Id: - jashpursportsKhel@gmail.com phone/Fax No-07763-220305

खुली निविदा सूचना जिला जशपुर (छ.ग.) अंतर्गत विकासखण्ड—कुनकुरी के सलियाटोली में 'एडवेंच स्पोर्टस' में प्रयुक्त होने वाले सामग्री (निविदा अभिलेख में उल्लेक्षित परिशिष्ट—IV में दर्शित सामग्री) को क्रय हेतु एजेन्सियों का निर्धारण रेट कांट्रेक्ट के माध्यम किए जाने हेत् निविदा आमंत्रण सूचना।

विवरण	प्रथम निविदा	समय	स्थान
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि		समय दोपहर 12.00 बजे तक	कलेक्टर, खेल
तकनीकी बिड खोलने की तिथि	03.10.2024	समय दोपहर 2.00 बजे तक	एवं युवा कल्याण विभाग जिला जशपुर (छ.ग.)
फाइनेन्सियल बिड खोलने की तिथि	03.10.2024	समय दोपहर 4.00 बजे तक	जरापुर (७.ग.)

Note: All communication with reference to this tender will be updated a the website https://jashpur-cg-nic-in It is advised that bidder should kee active and access regularly

निविदा संबंधी समस्त शर्तें एवं अभिलेख विभागीय वेबसाइट https://jashpur.cg.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा का आवेदन शुल्क रु 5000 / – (पांच हजार रुपये) एवं ई.एम. डी. की राशि निविदा प्रपत्र में निर्धारित है, जो बैंक ड्राफ्ट में कार्यालय कलेक्टर खेल एवं युवा कल्याण विभान जिला जशपुर (छ.ग.) के नाम से देय हो, स्वीकार्य होगा । निविदा का आवेदर शुल्क बैंक ड्राट निविदा के साथ संलंग्न किया जाना अनिवार्य हैं।

> हस्ता. कलेक्ट

जी-242502170 / 5

जिला-जशपुर (छ.ग.)

#### विन्ट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड गंजी. कार्या: डी–88, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020 CIN: L72100DL1991PLC045276

#### फोनः 011-44126457 वेबसाइटः vintroninformationcom ई—मेलः vil\_vintron@hotmail.com शेयरधारकों के लिए 33वीं वार्षिक आम बैठक की सचना

यह सचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपन्न दिनांक 8 अप्रैल. 2020. अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्ब 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022 एवं 25 सितम्बर, 2023 (संयुक्त रूप से 'एमसीए परिपत्र'' रूप में संदर्भित) के अनपालन में एजीएम की सचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए विन्ट इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 30 सितम्बर . 2024 को प्रातः 11.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्य 'ओएरीएम') के टारा आयोजित की जाएगी।

. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, ई—वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो के लिए लॉगिन विवरण के साथ कंपनी की एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ई–मेल सुवि 5 माध्यम से भेजी जाएगी जिनकी ई—मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकत है सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सक हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा ाध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य गिना जाएगा। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट vintroninformatic.com, स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई लिमिटेड (स्क्रिप कोर्ड: 517393) की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीर डिपॉजिटरी लिमिटेड (रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइ www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

शेयरधारक जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है उनके पास रिमोट ई–वोटिंग या एजी के माध्यम से ई—वोटिंग के दारा एजीएम की सचना में निर्धारित कामकाज पर रिमोटली अपना वोट दे का अवसर मिलेगा। जिन शेयरधारकों का ई—मेल पता डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं हैं निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए यूजर आईर्ड एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

क) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अपना फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर . ग्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन प्रति, पैन (स्व—सत्यापित), आधार (स्व—सत्यापित) ई—मेल s@vintron.co.in पर प्रदान करें।

ख) डिमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी, शेयरधारक व . ाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (स्व–सत्यापित), आधार (स्व–सत्यापि ई–मेल cs@vintron.co.in पर प्रदान करें। इसके अलावा, डिमैटिरियलाइज्ड प्रारूप एवं भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों

लिए रिमोटली वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया शेयरधारकों के लिए सूचना में दी जाएगी। डिमैटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिट प्रतिभागी के पास ई—मेल पते में कोई परिवर्तन या पता या बैंक खाता विवरण के बारे में अधिसूचि करें। इसके अलावा भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जो अपना  $\hat{z}$ —मेल पता  $\hat{z}$ खाता विवरण पंजीकत कराना चाहते हैं वे निर्धारित फॉर्म आईएसआर–1 एवं अन्य संगत फॉर्म रजिस्ट एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास भेजक पंजीकृत/अपडेट कराएं।

उपरोक्त सचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं हितलाभ तथा एमसीए परिपत्रों के अनपा ं जारी की जा रही है।

कते विन्टॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटे सुरभि पोखरिय स्थानः नर्ड दिल्ली कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

### Himachal Pradesh Public Works Department Invitation For Bids (IFB)

The Executive Engineer Bilaspur, Division No.2, HP-PWD, Bilaspur on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering system, from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the

Sr. No. 1, Name of Work: Construction of link road from Neri to Barnu Ghanser Tunighat road Km.0/00 to 6/00 (SH: C/o Formation cutting in Km.3/510 to 5/00, C/o R/Wall at RDs 2/020 to 2/030, 2/105 to 2/120, 2/480 to 2/495, 3/590 to 3/605, 3/645 to 3/660 & B/Wall at RD.2/395 to 2/410, 3/570 to 3/585 Construction of 900mm dia hume pipe culvert in Km.4/105). Estimated cost: Rs, 38,04,715/-, Starting Date for downloading Bid: 06.09.2024, Earnest money Rs.76,100/-, Deadline for submission of Bid: 12.09.2024, Time Period: Six Months, Sr. No. 2, Name of Work Construction of link road Boh to Hambar Km.0/0 to 1/500(SH:-Construction of 900mm dia Hume pipe culvert, V-shaped drain & soling, wearing & M/T work in Km.0/00 to 1/00). **Estimated cost:** Rs, 27,65,639/-, **Starting Date for** downloading Bid: 06.09.2024, Earnest money: Rs. 55,600/-, Deadline for submission of Bid: 12.09.2024, Time Period: Six Months, Sr. No. 3, Name of Work: Construction of Soldha Chandpur Bagfaglota Sikroha road Km.0/00 to 5/00(SH:-Providing and laying G-II & M/T in Km.3/00 to 5/00). Estimated cost: Rs, 32,23,166/-, Starting Date for downloading Bid: 06.09.2024, Earnest money: Rs. 64,500/-, Deadline for submission of Bid: 12.09.2024, Time Period: Six Months, Sr. No. 4, Name of Work: Construction of link road Laraghat Soldha road Km.0/00 to 2/500(SH: Providing and laying M/T work in Km.1/500 to 2/500). Estimated cost: Rs, 11,17,674/-, Starting Date for downloading Bid: 06.09.2024, Earnest money: Rs. 22,500/-, Deadline for submission of Bid: 12.09.2024, Time Period: Six Months The bidders are advised to note other details of tenders from the department website www.hptenders.gov.in

Executive Engine Bilaspur Divn. No. II, HP-PWD, Bilaspur Tel; 01978-222551 e-mail:-ee-bil2-hp@nic.in On behalf of Governor of Himachal Pradesh

## विदेशी कंपनी को 51 फीसदी हिस्सेदारी देने के पक्ष में हैं गडकरी

नई दिल्ली. (विप्र)। केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सुरंग निर्माण और कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने वाले संयक्त उद्यमों में विदेशी भागीदारों या कंपनियों को 51 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का समर्थन किया। गडकरी ने कहा कि संयुक्त उद्यम में विदेशी भागीदारों को बहलांश हिस्सेदारी दिया जाना यह सनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि केवल गंभीर और प्रौद्योगिकी रूप से सक्षम कंपनियां ही सुरंग परियोजनाओं के लिए बोली लगाएं।

गडकरी ने मजािकया लहजे में कहा कि कुछ सुरंग परियोजनाओं में यूरोपीय कंपनियां उन भारतीय फर्मों को भी साझेदार बनाती हैं जिनके पास खानपान सेवाएं या ब्यटी पार्लर हैं।

परिवहन मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, मैं गंभीरता से यह महसूस करता हूं कि डीपीआर बनाने और सरंगों के निर्माण के लिए बने संयुक्त उद्यम में विदेशी साझेदारों के पास 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होनी चाहिए। भारतीय कंपनियों के लिए 49 प्रतिशत हिस्सेदारी छोड देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम ठीक से हो। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी और वित्तीय मापदंड उदार होने चाहिए लेकिन ऐसा गुणवत्ता की

## कीमत पर नहीं हो। अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा

करने वाली उद्घोषणा धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त शंकर थापा, पुत्रः जंग बहादुर, पताः बी-1 / 14बी रघु नगर नई दिल्ली ने FIR No. 18/2013, U/s 457, 380, 411, 34 IPC थानाः सागरपर, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियक्त शंकर थापा, मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त शंकर थापा, फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि FIR No. 18/2013, U/s 457, 380, 411, 34 IPC थानाः सागरपुर, के उक्त अभियुक्त शंकर थापा, से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 09.10.2024 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार

सुश्री ईशा सिंह एलडी. जेएमएफसी-03, कमरा नं. 18, मुख्य भवन, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(घारा 82 सीआरपीसी देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त गुलजार पुत्र स्व. श्री दिलदार राजपूत पताः मकान नं 337, गली नं.20, मास्टर मोहल्ला तुगलकाबाद, नई दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 99/2014 घारा 363/366 मा.द.स. के तहत थानाः फतेहपुर बेरी, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **गुलजार** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त गुलजार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 99/2014 घारा 363/366 मा.द.स. के तहत थाना फतेहपुर बेरी, दिल्ली के उक्त गुलजार से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए आदेशानुसा दिनांक 03.10.2024 को या इससे पहले हाजिर हो। आशीष कुमार मीना

महानगर दंडाधिकारी-01, साउथ कक्ष नं. 214

DP/11705/SD/2024

पर भी उपलब्ध है।

DP/11725/SW/2024

(Court Matter)

साकेत न्यायालय, नई दिल्ली

### इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड CIN: L72300DL1977PLC008782

पंजी. कार्या.: 806, सिद्वार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019, फोन 011—26444812 ई-मेलः idmcomplianceofficer@gmail.com वेबसाइटः www.idmlimited.in

47वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग एवं बुक बंदी की सूचना देनांक 26 अगस्त. 2024 (शेयरधारकों के लिए सचना) पर प्रकाशित हमारी समाचारपत्र सच के क्रम में हम सूचित करते हैं कि 47वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादः के लिए इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड (''कंपनी'') के 47वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवा 26 सितम्बर, 2024 को अप. 3.30 बजे ("आईएसटी") विडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअत माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने उन सभी सदस्यों क 47वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य मंगलवार, 3 सितम्बर, 2024 को पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं 47वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कम्पनी की वेबसाइट www.idmlimited.i

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 2/2022 दिनांक मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022, 9/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 एवं अन्य संगत परिपत्र, यदि कोई हो ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीय-गध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीयन विनियम'') के विनिय 4 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र र ... सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, परिप सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, गरिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मङ् .022. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी. 2023 ए परिपन्न सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी—पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांव अक्टूबर, 2023 (संयुक्त रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित) तथा अन्य लागू कानूने नयमों एंव विनियमों के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना कंपेर्न की 47वीं वार्षिक आम बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों 'ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जा रही है। 47वीं एजीएम का मानद स्थान कंपनी क . यंजीकृत कार्यालय होगा।

सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार एजीएम की सचना के साथ कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट (2023–24) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यो को भेजी जा रही है जिनके ई—मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। न्म्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण<sup>े</sup> में कंपन की 47वीं एजीएम के प्रयोजन हेत कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर टांसफर बक शकवा 20 सितम्बर, 2024 से रविवार, 22 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय-सम ार यथासंशोधित के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधान और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के ानुसरण में कम्पनी अपने सदस्यों को सेन्ट्रल डिपॉर्जिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई बैठक के दौरान प्रदान की गई ई—वोटिंग ('ई—वोटिंग') और ई-वोटिंग सेवाएं (रिमोट ई-वोटिंग) सविधा के माध्यम से 47वीं एजीएम की सचना में निर्धारित ास्तावों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों ने निम्नलिखित को नोट करर का अनुरोध किया जाता है:

क) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 प्रात: 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद सीडीएसएर द्वारा ई-वोटिंग मॉडयूल हटा लिया जाएगा और सदस्यों को कथित तिथि एवं समय के बाव इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ख) सदस्यों का वोटिंग अधिकार (रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट

बृहस्पतिवार, 19 सितम्बर, 2024 (''कट—ऑफ तिथि'') को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी उनके शेयर के आनुपातिक होगा। बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की सुविध प्पलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग व नाध्यम से पहले अपना वोट नहीं दिया है. वे ही बैठक में अपना वोट देने के हकदार होंगे। एव व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा प्रस्तुत की ाई लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम -वोटिंग की स्विधा का लाभ उठाने के योग्य होंगे।

r) कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सचना भेजे जाने व , गांद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि को शेयर धारित करता है, वह elpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 18002109911 पर कॉल करके ॉगडन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश एजीए

बोर्ड द्वारा एजीएम में ई-वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके भायोजित करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु श्री निशांत राना, मालिक मैसर्स

ाना एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया है। वोटिंग का परिणाम एजीएम समाप्त होने के दो कार्यदिवसों के भीतर घोषित कर दिया जाएगा र्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किये गये परिणाम की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज जहां कम्पन सचीबद्ध है अर्थात बीएसई लिमिटेड को भी दी जाएगी।

-वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ या परेशानी के लिए आप www.evotingindia.com प ल्प सेक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई—वोटिंग मैनुअल का वलोकन करें या हेल्पडेस्क ई—मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिखें। सदस्यगप रेमोट ई—वोटिंग या एजीएम के समय ई—वोटिंग से संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत व लेए श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन यूचुरैक्स, मफतलाल मेल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई—400013 से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 18002109911 या 022—23058542 / 3 पर कॉल कर सकते हैं ।

दिनांकः ३ सितम्बर, २०२४

कृते इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड निदेशक मंडल के आदेशानुसा प्रदीप तहिलियाः कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

## नियमित यात्रा करने वाले मणिपुर का मानवीय दौरा कब करेंगे : कांग्रेस

दिल्ली. (वीअ)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ब्रुनेई और सिंगापर की यात्रा पर जाने के मद्देनजर कांग्रेस ने मंगलवार को उन पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि लगातार यात्रा करने वाले हमारे नेता अशांत राज्य मणिपर का मानवीय दौरा कब करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन-अल-बोल्किया के निमंत्रण पर तीन और चार सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर जाएंगे. जहां वह सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबत करने पर चर्चा करेंगे। मोदी सि-ंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर चार और पांच सितंबर को उस देश की भी यात्रा करेंगे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा,

बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ब्रनेई की यात्रा कर रहे हैं जिसे ऐतिहासिक यात्रा के रूप में पेश किया जा रहा है। इसके बाद वह सिंगापुर जाएंगे। यात्रा के लिए लगातार उडान भरते रहने वाले अशांत राज्य मणिपुर की मानवीय यात्रा कब करेंगे? उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन

सार्वजनिक सूचना र्घसाधारण को सचित किया जाता है कि इम कि मेनपाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश ाम एवं कमल देवी पत्नी मेनपाल शर्मा वासी म.नं. 1692, सैक्टर—3, अर्बन स्टेट करूक्षेत्र ने अपने पत्र विवेक शर्मा व उसकी पत्नी मनीषा कौशिक से अपने ामस्त संबंध समाप्त कर लिए है व नको अपनी तमाम चल-अचल संपत्ति बेदखल कर दिया है। आगे उक्त वेवेक शर्मा व उसकी पत्नी के किसी भी ने—देन, कार्य, आचरण व व्यवहार का

उत्तरदायी वह स्वयं होगा। हम या हमारी

सिंह के दावों के विपरीत राज्य में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मणिपुर में हिंसा भडके आज ठीक 16 महीने बीत गए। इस हिंसा में सैकडों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग विस्थापित हो गए, जो राहत शिविरों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं।

**Public Notice** 

llah R/o 5322, Kucha Rehman handni Chowk Delhi-110006 due t ne acts and deeds of his son and daughter in law have concluded t inherit and dis-own his son Furka Khan and his wife Farheen Naaz fron properties & have also severed hi ations with them for all intent and urposes. Henceforth they shall hav o right, title or interest in the roperties of my client. Any person ealing with them shall do so at his/ he own risk and peril. Raiesh Kuman Tis Hazari Courts, Delhi-54.

### अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा

प्रम्पत्ति नहीं।

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त मुबिन, पुत्र हकूद्दीन, पता : गाँव – खेतवाड़ा, तहसील – पहाड़ी, ज़िला – भरतपुर, राजस्थान दुसरा पताः मकान नं. ए-3, प्रेम नगर-III, किराड़ी, दिल्ली ने मुकदमा FIR No. 856/2022 U/s 279 IPC, थानाः नांगलोई, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मुबिन मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मुबिन फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि मुकदमा FIR No. 856/2022 U/s 279 IPC, थानाः नांगलोई, दिल्ली के उक्त अभियुक्त मुबिन से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 06.12.2024 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार सुश्री चारू आसीवाल महानगर दण्डाधिकारी DP/11679/OD/2024 कमरा नं. 336ए, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली (Court Matter)

#### ऋण बसूली न्यायाधिकरण-।, दिल्ली तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-11000 TA NO. 2165/2022

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरदर्शन सिंह एवं अन्य

... आचेदक ... प्रतिबादी

(1) हरदर्शन सिंह एवं अन्य, पीच पाम ई-903, ओमेक्स पाम एम यू सेक्टर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश-201301 अन्य पताः प्लॉट नंबर ए1, सेक्टर 40/41, सूरजपुर कासना रोड ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकार क्षेत्र जिला गीतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201306 अन्य पताः 15 ऑफिसर्स एन्क्लेब, फेज 2, खेरी गुजरान रोड, आर्मी एयर लाइन पटियात भेसर्स आइडिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, सी-294, पहली मंजिल, विवेक विहार, दिल्ली-110098

अन्य पताः कॉर्पोरेट कार्यालय, सी–10. रामप्रस्थ गाजियाबाद यूपी 201010 कि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध रु. 25,41,596.26 (रुपए पवीस लाख इक्तालिस हजार पाँच र

ww.etribunal.gov.in देखें फोन नंबर 011—23748473)। ग्रान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्ण

आपकी अनुपरिवादी में किया जाएगा। वैरिश्वक महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु :— सभी अधिवतता/विवादी "Cisco Webex" ऐप्लीकेशन/ सॉफ्टवेर अंडिनलोंड करेंगे, रजिस्ट्रार/ वसूली अधिकारी—। / तथा वसूली अधिकारी—।। द्वारा मामलों की सुनवाई की अगर विथि हेतु "Meeting ID" तथा "Password" अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल नाम "https://drt.govi.n" पर सार्वजनिक सुवना शीर्वक के अंतर्गत उपलब्ध होगा। किसी कार्याधिक्य की स्थिति : अधिवतना/ विवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 011—23748473 पर सम्पर्क कर सकते हैं। हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 20 मई 2024 को दिया गया।

ातिवादी आगे पूछताछ के लिए नीचे लिखे नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं। वेद्वान रजिस्ट्रार, डीआरटी—।, फोन नंबर 011—23748473 ईंगेल: drt1delhi-dfs@nic.in

## १४०३४/१४०३३ जम्मू मेल का सूबेदारगंज तक विस्तार

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु रेलवे द्वारा रेलगाड़ी सं. 14034/14033 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा - दिल्ली जं. - श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा (जम्मू मेल) को दिनांक 05.09.2024 से सूबेदारगंज तक विस्तार करने का निणय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

रेलगाड़ी संख्या

14034

वर्तमान समय

आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान

श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा		15:20	-	15:20			
शहीद कैप्टन तुषार महाजन (उधमपुर) से अंबाला केंट जंक्शन के बीच समय में कोई बदलाव नहीं।							
अंबाला छावनी जं.	00:28	00:35	00:25	00:30			
कुरुक्षेत्र जं.	01:05	01:07	00:59	01:01			
करनाल	01:30	01:32	01:22	01:24			
पानीपत जं.	01:54	01:56	01:44	01:46			
समालखा	02:10	02:12	01:58	02:00			
सोनीपत जं.	02:53	02:55	02:17	02:19			
नरेला	03:09	03:11	02:31	02:33			
आदर्श नगर दिल्ली	03:28	03:30	02:54	02:56			
सब्जी मण्डी	03:39	03:41	03:04	03:06			
दिल्ली जं.	04:30	122	04:05	04:20			
अलीगढ़ जं.			06:08	06:10			
दूण्डला			07:06	07:08			
गोविन्दपुरी विस्तारित		09:25	09:30				
फतेहपुर	स्टेशन		10:25	10:27			
सूबेदारगंज			12:35				
16 E	75 FS						

स्टेशन	रेलगाड़ी संख्या	वर्तमान	समय	परिवर्तित समय		
(CKI-I	14033	आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान	
-	्रवेदारगंज				10:35	
	फतेहपुर	0.000000	गरित	11:40	11:42	
ਰ	ोविन्दपुरी	स्टे	शन	13:10	13:15	
	दूण्डला			15:58	16:00	
3	ालीगढ़ जं.			17:08	17:10	
f	देल्ली जं.		20:05	19:55	20:10	
स	ब्जी मण्डी	20:20	20:21	20:23	20:25	
	नरेला	20:41	20:43	20:45	20:47	
4	सोनीपत जं.		20:59	21:01	21:03	
	गन्नीर		21:14	21:19	21:21	
	समालखा		21:27	21:32	21:34	
ч	ानीपत जं.	22:02	22:04	21:48	21:50	
	करनाल	22:26	22:28	22:12	22:14	
ą	रुक्षेत्र जं.	22:52	22:54	22:47	22:49	
अंबा	अंबाला छावनी जं.		00:07	00:02	00:07	
अंबाला व	कैंट जंक्शन से शर्ह समय	ोद कैप्टन तु में कोई बद	षार महाजन लाव नहीं।	न (उधमपुर	) के बीच	
श्री म	श्री माता वैष्णो देवी कटडा				09:15	

ोटः रेलगाड़ी संख्या 14034/14033 सुबेदारगंज – श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा को सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तन होने के कारण इसकी रेलगाड़ी संख्या मे बदलाव किय जायेगा जो नई रेलगाड़ी संख्या 20434 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से दिनांक 04.01 2025 से और रेलगाड़ी संख्या 20433 सुबेदारगंज से दिनांक 04.01.2025 से प्रमावी होगा

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन सं. 139 पर संपर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES ऐप देखें। 🖸 🖪 🔯 पर हमें फॉलो करें



# वर्गीकृत विज्ञापन

**Change of Name** I. Ashok Kumar Sah S/o Shri Shiv Narayan Shah, R/o H. No. 94. Gali No. 3. Ekta Vihar, Meethapur, Badarpur, PO: Badarpur, District South Delhi, Delhi-110044, have changed my name to Prabhu Kumar Shah for all future purposes.

C-35519

I, Anita Gupta W/o Shri Akshay Kumar Gupta R/o B-43, Vishal Enclave, Tagore Garden, West Delhi, Delhi-110027, have changed my name to Anayata Bhati for all future purposes.

C-35519 I, Lalita alias Kiran Kumari Rawat D/o Shri Raj Kumar, R/o Plot No. 142, Kh. No. 154, First Floor, Raj Pur Khurd Extension, Raj Pur Khurd, South Delhi, Delhi-110068, have changed my name to Kiran Kumari Rawat for all future purposes.

समन वास्ते करवाई तलब आर्डर–5, कायरा 1 व 5 न्यायालय श्रीमान् मोटर दुर्घटना

C-35519

दावा अधिकरण, बुलन्दशहर नदीम खान पुत्र राजेश उम्र 17 वर निवासी—403 गांवाशपुर औ तहसील–सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर (उ.प्र.) नाबालिग मात पुबीना पत्नी राजेश उम्र 35 वर्ष नेवासी—म. नं. ४०३, गांव पैर बादशाहपुर बादशाहपुर, तहसील–सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर (उ.प्र.)

....वादी / याची

बनाम रोनू मित्वल पुत्री प्रदीप मित्तल निवासी म. नं.—3एम/38, नेहरू गाजियाबाद, जिला-गाजियाबाद (उ.प्र.)

(मालिक दुर्घटना कारित मारूति ईको कार नं.—यूपी—14बीडब्ल्यू-5057) 2. सचिन रावत पुत्र किरनपाल सिंह निवासी गांव–अधीनगर

तहसील पोस्ट—चन्देरू. जिला–बुलन्दशहर। (चालक दुर्घटना कारित मारूति ईको कार नं.—यूपी—14बीडब्ल्यू-

5057) 3. रिलाइन्स जनरल इं.के.लि डिवीजन आफिस रोहित हाउस प्रथम तल, एचएस बी.सी. बैंक 1 के ऊपर, शाहनजफ रोड, हजरतगंज लखनऊ द्वारा प्रवन्धक। (बीमाकर्त दुर्घटना कारित मारूति ईको कार नं.—यूपी—14बीडब्ल्यू— 5057)

....प्रतिवादी / विपक्षी सं.-2 हरगाह वादीगण ने आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बातारीख 03.10.2024 ई. बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुछ उमराई अहम मुतालिक मुकदमा का जवाब दे सके हाजि हो और जबाव देही दावा करें औ आपको लाजिम है कि उसी रोज अपने दस्तावेज पेश करें। जिस पर आप अपनी जवाबदेही के दस्तखत कराना चाहते हो।

बवक्त मेरे दस्तख्त और मोहर अदालत के आज 07 बतारीख माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया।

हस्ता. / न्यायालय श्रीमान् मोटर दुर्घटन दावा अधिकरण, बुलन्दशह

वैधानिक सूचनाः पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन मे प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पः उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

## RO NO. 1887/2024-2025